GULSHAN POLYOLS LIMITED Gulshan Polyols Limited

CIN: L24231UP2000PLC034918 Corporate Office: G-81, Preet Vihar,

Delhi-110092, India Phone: +91 11 49999200 Fax: +91 11 49999202

E-mail : gscldelhi@gulshanindia.com Website: www.gulshanindia.com

GPL\SEC\2022-23 July 25, 2022

To,

**BSE Limited** 

Corporate Service Department, 1st Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai Maharashtra- 400 001 Scrip Code: 532457 The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, 'G' block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai Maharashtra-400 051 Symbol: GULPOLY

Subject: Notice to Shareholders for Transfer of Equity Shares & Unclaimed Dividend to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

Dear Sir/Maám,

Pursuant to Regulation 30 and Part A of Schedule III read with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated September 9, 2015 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed the following:

- copies of the newspaper advertisements published in Financial Express (English) All India Edition and Jansatta (Hindi), today on July 25, 2022; and
- 2. copy of Letter to Shareholders.

The above advertisements and letters were published and issued to the shareholders for intimating/reminding the due date for transfer of all shares in respect of which dividend(s) has remained unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more including all benefits accruing on such shares, pertaining to the dividends declared for Financial Year 2014-15, to the IEPF, in pursuance to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

This will also be hosted on Company's website at www.gulshanindia.com under 'Investors Relations' Section.

This is for your information and records.

Thanking you, Yours faithfully

For Gulshan Polyols Limited

(Asha Mittal) Company Secretary

Encl: as above

**FINANCIAL EXPRESS** 

## WAR ENTERS SIXTH MONTH

# Ukraine to resume grain exports despite Russian strike on Odesa

**NATALIA ZINETS** Kyiv, July 24

**UKRAINE PRESSED AHEAD** on Sunday with efforts to restart grain exports from Black Sea ports after a missile attack on Odesa raised doubts whether Russia would honour a deal aimed at easing global food shortages caused by the war.

President Volodymyr Zelenskiy denounced Saturday's strikes as "barbarism" that showed Moscow could not be trusted to implement a deal struck just one day earlier with Turkish and United Nations mediation.

Public broadcaster Suspilne quoted the Ukrainian military as saying after the strike that the missiles did not hit the port's grain storage area or cause significant damage and Kyiv said preparations to resume grain shipments were ongoing.

"We continue technical preparations for the launch of exports of agricultural products from our ports," Infrastructure Minister Oleksandr Kubrakov



Wheat harvest in Russian-held part of Zaporizhzhia region of Ukraine

said in a Facebook post.

Odesa with missiles.

ship and a weapons store in

and Kyiv was hailed as a diplo-

matic breakthrough that would

help curb soaring global food

prices by restoring grain ship-

The deal signed by Moscow

ments from Ukrainian ports to Russia said on Sunday its pre-warlevels of 5 million tonne forces had hit a Ukrainian war-(MT) a month.

> But Zelenskiy's economic advisorsaid on Sunday the strike on Odesa showed deliveries could still get seriously disrupted. "Yesterday's strike indicates that it will definitely not work like that," Oleh Ustenko

Regd. Office: 9th K.M., Jansath Road, Muzaffamagar - 251001, Uttar Pradesh, India

**GULSHAN POLYOLS LIMITED** 

Phone: +91 11 49999200; Fax: +91 11 49999202

Corporate Office: G-81, Preet Vihar, Delhi-110092, India

E-mail: cs@qulshanindia.com, Website: www.qulshanindia.com

Notice to Shareholders

Transfer of Equity Shares & Unclaimed Dividends to

Investor Education & Protection Fund ("IEPF")

CIN: L24231UP2000PLC034918

told Ukranian television.

capacity to export 60 MT of grain over the next nine

War enters sixth month

As the war entered its sixth

(e) emudhra

Standalone

# Britain's PM hopefuls promise to act tough on illegal migration

**REUTERS** London, July 24

BRITAIN'S TWO CON-**TENDERS** to replace Boris Johnson as prime minister promised on Sunday to tackle illegal immigration as a priority, with both backing the government's policy of sending migrants to Rwanda.

Former finance minister Rishi Sunak and foreign secretary Liz Truss are battling to become Britain's next prime minister. The two candidates have so far clashed over the timing of any tax cuts at a time when Britain is facing rising inflation, stalling growth and an increasing number of strikes.

On Sunday both candidates set out their plans to press ahead with the government's policy of sending illegal migrants to Rwanda, though the first deportation flight was blocked last month by the European Court of Human Rights (ECHR).

Truss said she would look to pursue more "third country processing partnerships like Rwanda", would increase the border force by 20% and strengthen Britain's Bill of Rights."As prime minister, I am determined to see the Rwanda





Former finance minister Rishi Sunak (Right) and foreign secretary Liz Truss are in the race to become next PM

policy through to full implementation as well as exploring other countries where we can work on similar partnerships," Truss said in a statement.

"I'll make sure we have the

tion at our borders. I will not cower to the ECHR and its continued efforts to try and control immigration policy."

right levels of force and protec-

Sunak, who won the backing

of most Conservative lawmak ers in earlier leadership votes, said he would treat illegal immigration as "one of five major emergency responses" he will tackle in his first 100 days as prime minister. "If a country won't cooperate on taking back illegal migrants, I won't think twice about our relationship with them when it comes to foreign aid, trade and visas."



### एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) CIN No. L40101HP1988GOI008409

## NOTICE

#### TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

Notice is hereby given pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time. The IEPF Rules, amongst other matters, provide that all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, shall be transferred in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF). Adhering to the requirements as set out in the IEPF Rules, the Company

has also communicated individually to concerned shareholders at their latest available addresses, whose shares are due for transfer to IEPF Authority under the said rules for taking appropriate action.

Further, in terms of relevant IEPF Rules, the Company has also uploaded details (including DP & Client ID/Folio Number) of concerned shareholders whose shares are due for transfer to IEPF on website of the Company (www.sivn.nic.in) under the Investor Relations Section. The details uploaded by Company on its website should be regarded and shall be deemed as adequate notice in respect of transfer of shares Shareholders are advised to claim the unclaimed dividend amount from

the Financial Year 2014-15 onwards immediately by sending a formal letter mentioning their beneficiary account no. or folio number along with self - attested copy of PAN card and address proof immediately to Alankit Assignments Limited., Registrar and Share Transfer Agent of the Company by 27th October, 2022

In case the Company / Registrar & Share Transfer Agent does not receive any communication from the concerned shareholders claiming dividend of any of the past Seven Financial years by 27th October, 2022 or such other date as may be extended, the Company shall proceed to transfer the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, without any further notice as per procedure set out in IEPF Rules. Shareholders may please note that the shares and unclaimed amounts

transferred to the IEPF can be claimed back from the IEPF after following the procedure prescribed under the Companies Act, 2013 and IEPF Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed amount and shares transferred to IEPF pursuant to provisions of said rules, as amended from time to time. For any queries or clarifications on the subject matter,

shareholders may contact:

Company Secretary, SJVN Limited. SJVN Corporate Office Complex, Shanan, Shimla - 171006

Alankit Assignments Limited Alankit Heights, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110 055. Tel: 011 - 42541957 rameshk1@alankit.com

Place: Shimla Date: 25.07.2022

Email: cs.sjvn@sjvn.nic.in

Tel: 0177 - 2660075

Soumendra Das Company Secretary

For SJVN Limited

Regd. Office: SJVN Corporate Office Complex, Shanan, Shimla - 171006 (HP) Tel: 0177- 2660070, Email: cs.sjvn@sjvn.nic.in, Website: www.sjvn.nic.in

## **BSE LIMITED**

25<sup>™</sup> Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 CIN No: L67120MH2005PLC155188

**PUBLIC NOTICE** 

As part of the process, Exchange has issued a letter dated June 22, 2022 at their last known address as per Exchange as well as MCA records (where different), informing the said companies to avail the opportunity of personal hearing before the Delisting Committee. However, in case of the undermentioned 4 companies, the Exchange has not received any response / the said letter could not be delivered through courier/ speed post at their registered office address. The details of companies and

Sr. No.	Scrip Code	Name of the company	Address of company				
1	530261	Arcuttipore Tea Company Ltd	4A, MMS Chambers, 1 <sup>st</sup> Floor, Council House Street, Kolkata, West Bengal - 700001				
2	517481	Artech Power & Trading Limited	101 - 104, 1 <sup>st</sup> Floor, Tower A, Peninsula Corporate Park, G.K. Road, Lower Parel (West), Mumbai, Maharashtra - 400013				
3	512135	Ensa Steel Industries Ltd.	43, Atlanta Building, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra - 400021				
4	500394	Solid Carbide Tools Ltd	A-735, TTC Industrial Area, Khairne, MIDC, Thane Belapur				

In light of the aforesaid, this notice is being issued by the Exchange to inform that a last and final opportunity is being granted to companies to inform whether they want to avail of a personal hearing before the Delisting Committee of the Exchange in its meeting scheduled on August 2, 2022. Please note that if no confirmation is received from the Company strictly within the stipulated timelines and prescribed mode given below, it would be assumed that the Company has waived the opportunity of being heard and Delisting Committee shall be constrained to decide the matter, on an ex-parte basis. The Exchange would proceed with the process of compulsory delisting as per the provisions of SEBI Delisting of Equity Shares, Regulations.

If the companies included in this notice, fail to respond within the mandated timeline in the prescribed mode, it will be presumed that these companies have waived off their requirement of personal hearing and the Exchange shall proceed with the procedure for compulsory delisting of the companies under the provisions of SEBI (Delisting of equity shares) Regulations, 2009.

> For and On behalf of BSE Ltd. July 25, 2022

## China launches second space station module



carrying the Wentian lab module for China's space station under construction. takes off from Wenchang Spacecraft Launch Site in Hainan province of China **REUTERS** 

**REUTERS** Beijing, July 24

**CHINA ON SUNDAY** launched the second of three modules to its permanent space station, in one of the final missions needed to complete the orbiting outpost by year's end.

A live feed on state broadcaster CCTV showed the 23tonne Wentian ("Quest for the Heavens") laboratory module launching on the back of China's most powerful rocket, the Long March 5B, at 2:22 pm (0622 GMT) from the Wenchang Space Launch Center on the southern island of Hainan.

Space agency staff, seen on the live feed observing the progress of the launch from a control room, cheered and applauded when the Wentian separated from the rocket about 10 minutes after the launch.

The launch was "a complete success", CCTV reported shortly after. China began constructing the space station in April 2021 with the launch of the Tianhe module, the main living quarters, in the first of 11 crewed and uncrewed missions in the undertaking. The Wentian lab module,

17.9 metres (59 feet) long, will be where astronauts can carry out scientific experiments, along with the other lab module yet to be launched — Mengtian ("Dreaming of the Heavens"). Wentian features an airlock

cabin that is to be the main exitentry point for extravehicular activities when the station is completed. It will also serve as short-term living quarters for astronauts during crew rotations on the station, designed for long-term accommodation of just three astronauts.

Mengtian is expected to be launched in October and, like Wentian, is to dock with Tianhe, forming a T-shaped structure.

The completion of the struc-

ture, about a fifth of the International Space Station by mass, the Shenzhou-15 crew.

## 'BARBARIC' **STRIKE** ■ Russia said on

- Sunday its forces had hit a Ukrainian warship and a weapons store in Odesa with missiles
- Zelenskiy's economic advisor said the strike on Odesa showed deliveries could still get seriously disrupted
- While the main theatre of ■ President Zelenskiy combat has been the Donbas, denounced Saturday's Zelenskiy said in video on Saturstrikes as "barbarism" day that Ukrainian forces were

While Ukraine had the

months, this could take up to 24 months if its ports could not function properly, he said.



alongside a tug boat.

month on Sunday there was no

The Ukrainian military

reported Russian shelling in the

north, south and east, and again

referred to Russian operations

paving the way for an assault on

Bakhmut in the Donbas region

its forces had shot down early on

Sunday three Russian Kalibr

cruise missiles fired from the

Black Sea and aimed at the west-

moving "step by step" into the

occupied eastern Black Sea

condemnation from the United

Nations, the European Union,

the US, Britain, Germany and

Italy. Video released by the

Ukrainian military showed fire-

fighters battling a blaze on an

unidentified boat moored

The strikes on Odesa drew

region of Kherson.

ern Khmelnytskiy region.

The air force command said

in the east.

sign of a let-up in the fighting.

भारतीय रिज़र्व बैंक

-REUTERS








auction, for an aggregate amount of ₹18,150 crore (Face Value). Amount Additional

Sr. No.	State/UT	to be raised (₹ cr)	borrowing (Greenshoe) option (₹ cr)	Tenure (in years)	(Type of auction)
1.	Andhra	1,000		9	Yield based
A800	Pradesh	1,000	*	15	Yield based
2.	Gujarat	1,000	500	10	Yield based
3.	Haryana	1,000	*	10	Yield based
3,	Haryana	1,000	. 25	20	Yield based
4.	Jammu and Kashmir	1,250		15	Yield based
5.	Nagaland	250	512	10	Yield based
6.	Sikkim	150	-	10	Yield based
		1,000	(2)	10	Yield based
7.	Rajasthan	1,000		15	Yield based
		1,000		20	Yield based
5 54		1,500	7.6	7	Yield based
		2,500		10	Yield based
8.	Tamil Nadu	1,000		Reissue of 7,39% Tamil Nadu SDL 2042 issued on March 30, 2022	Price Based
9.	West Bengal	2,000		16	Yield based
3.0	rroot bengar	1,500	83	20	Yield based
	Total	18,150			

Solution (E-Kuber) system on July 26, 2022 (Tuesday). Individual investors can also place bids as per the non-competitive scheme through the Retail Direct portal (https://rbiretaildirect.org.in). For further details please refer to RBI press release dated July 22, 2022 (Friday) on RBI website www.rbi.org.in.

"Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money"

The auction will be conducted on Reserve Bank of India Core Banking





The Exchange has initiated the process of compulsory delisting of companies which have been suspended for a period of more than 6 months for non-compliance with critical regulations of the SEBI (LODR) Regulations 2015/ clauses of the erstwhile Listing Agreement and have not completed the formalities for revocation of suspension within the stipulated timelines.

addresses of their registered offices are as given below:

Sr. No.	Scrip Code	Name of the company	Address of company				
1	530261	Arcuttipore Tea Company Ltd	4A, MMS Chambers, 1 <sup>st</sup> Floor, Council House Street, Kolkata, West Bengal - 700001				
2	517481	Artech Power & Trading Limited	101 - 104, 1 <sup>st</sup> Floor, Tower A, Peninsula Corporate Park, G.K. Road, Lower Parel (West), Mumbai, Maharashtra - 400013				
3	512135	Ensa Steel Industries Ltd.	43, Atlanta Building, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra - 400021				
4	500394	Solid Carbide Tools Ltd	A-735, TTC Industrial Area, Khairne, MIDC, Thane Belapur Road, Navi Mumbai, Maharashtra - 400705				

Exchange had also sent emails to the registered email ids with the Exchange that have not received any response to the email communication.

Further, there has been no representation received in response to emails sent to promoters of the above-mentioned companies on June 22, 2022 enclosing copy of above said letter, informing about non-delivery of letter.

The aforementioned companies may address a communication at the specified email id: bse.delistscn@bseindia.com by July 27, 2022.

New Delhi

financialexp.epa

is a source of pride among ordinary Chinese people and will cap President Xi Jinping's 10 years as leader of China's Communist Party. On board the space station are Shenzhou-14 mission commander Chen Dong and team mates Liu Yang and Cai Xuzhe. They are slated to return to Earth in December with the arrival of

## Place:Bengaluru

. The above results have been reviewed by the audit committee and approved by Board of Directors at their meeting held on July 23,2022. The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly/ annual financial results is available on the websites of the Stock Exchange's, (www.bseindia.com and nseindia.com) and the listed entity website (www.emudhra.com). . The full format of the Un-audited financial results are available in stock exchange website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the company website(www.emudhra.com) By order of the Board

for eMudhra Limited V Srinivasan **Executive Chairman** (DIN: 00640646)



Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), as amended from time to time, all shares in respect of which dividends has remained unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company including all benefits accruing on such shares in favour of IEPF.

pursuance to the IEPF Rules, the Company is sending necessary intimation to the concerned hareholders at their latest available address with the Company's Registrar and Share Transfer Agent to those who have not claimed/ encashed dividends for the Financial Year 2014-15 and all subsequent dividends declared by the Company and whose shares are liable to be transferred to EPF. The details of such shareholders have also been uploaded on the website of the Company at www.gulshanindia.com under the 'Investors Relations' section. The shareholders may access the website of the Company to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF.

n case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before due date i.e. October 25, 2022, it shall transfer the shares to IEPF pursuant to the said IEPF Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividends and shares so transferred to IEPF. For any query or assistance, please write to the Company at the above address/e-mail or to the

Company's Registrar and Share Transfer Agent, Alankit Assignments Limited at Alankit Heights,

4E/2 Jhandewalan Extension-1, New Delhi-110055, India; Phone: +91-11-42541955/1234 +91-8929955318; Email: ramap@alankit.com, for prompt action. Shareholders may note that post said date, they may claim both the unclaimed dividends and the shares so transferred to IEPF Authority by submitting an online application to IEPF in Form IEPF-5 available on the website of IEPF i.e. <a href="www.iepf.gov.in">www.iepf.gov.in</a>) simultaneously sending original hard copy thereof, duly signed, along with other requisite documents enumerated in the said Form IEPF-5 to

The information contained in this notice is also available on Company's website www.gulshanindia.com

the Company at its Corporate Office's address mentioned above.

and on the stock exchange website <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u>. Shareholders may note that as per amended and relevant laws, any service request can be processed only after the folio is KYC Compliant as per the prescribed format provided on the Company's website: https://www.gulshanindia.com/shareholders-other-form.php.

For Gulshan Polyols Limited Date: July 24, 2022 Asha Mittal Place: Delhi Company Secretary

# eMudhra Limited

Registered Office: Plot No 12-P1-A & 12-P1-B, Hi-Tech Defence and Aerospace Park (IT Sector) Jala Hobli, BK Palva, Bengaluru 562 149, Karnataka India.

www.emudhra.com|Telephone:080 - 4848 4046 (All amounts are in INR million, unless otherwise stated) Un-audited Financial Results For The Quarter Ended June 30,2022 [[Regulation 52 (8), read with

Consolidated

Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations)]]

			Cons	olidated		Standalone			
	X	Three months ended	9 ,	8 8	For the year ended	Three months ended	5 63		For the year ended
SI No.	Particulars	June 30,2022 (Un- audited)	March 31,2022 (Un- audited)	June 30,2021 (Un- audited)	March 31,2022 (audited)	June 30,2022 (Un- audited)	March 31,2022 (Un- audited)	June 30,2021 (Un- audited)	March 31,2022 (Audited)
1.	Total Income from operations	522.16	453.93	429.16	1,826.37	345.45	410.62	343.48	1,530.21
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items)*	162.68	137.16	114.99	504.59	78.27	138.78	118.89	390.47
	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary items)*	162.68	137.16	114.99	504.59	78.27	138.78	118.89	390.47
	Net Profit/(Loss) for the period after tax( after exceptional and /or extraordinary items)	137.13	107.97	94.99	411.37	57.09	112.70	98.89	300.37
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	134.65	107.91	100.38	419.35	55,08	112.49	104.89	307.75
_	Paid up Equity Share Capital	390.36	350.90	350.90	350.90	390.36	350.90	350.90	350.90
1.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	8		*	888.49	#8	19	(*)	664.71
8.	Securities Premium Account	(4)	35	- #1		10	- 3	(3.2)	
9.	Net worth				1,535.78	-65			1,265.61
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	8	8	50	- 65	- 8	- 8		U.S.
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	23	- 94	40	86.00	49	9	8483	86,00
12.	Debt Equity Ratio (Percentage)	28	8	8 2	18.75%	20	12	928	22.76%
13.	Earnings Per Share ( face value of Rs.5/-each)** (for continuing and discontinued operations)								
13.1	Basic	1.76	1.54	1.35	5.86	0.73	1.61	1.41	4.28
13.2	Diluted	1.86	1.54	1.35	5.86	0.78	1.61	1.41	4.28
14.		9 9	32	22	197.43				164.00
15.	Debenture Redemption Reserve	590	8	200	•		3	- 8	•
16.	Debt Service Coverage Ratio (Times)	8	14	¥A	8.55	<b>2</b> 0		27	6.81
17.	Interest Service Coverage Ratio (Times)	123	94	S 430	25.58	8	- 4	22	20.33

There was no exceptional and extra ordinary items during the above mentioned period/year "Not annualised except for the year ended March 31,2022

Notes:

Date: July 23,2022



लम्बित है।



#### जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L35911HR1965PLC004485 पंजी. कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, यमुना नगर-135001, हरियाणा कॉर्पोरेट कार्यालयः 2, पार्क लेन, किशनगढ़, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, भारत ईमेल आईडीः investor.relations@jaispring.com, वेबसाईटः www.jaispring.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा इस विषय पर जारी लागु होने वाले सर्क्युलर्स के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (सूचीयन विनियमन) के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की 56वें वार्षिक आम सभा (एजीएम) किसी सामूंहिक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') सुविधा द्वारा शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 को 12.30 बजे अप. में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट के साथ 56वें एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों ऐसे सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल आईडी शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। वह कम्पनी की वेबसाईट www.jaispring.com पर भी उपलब्ध है तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम सूचना की भौतिक प्रति के प्रेषण की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है तथा इसीलिये सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी। फिर भी, यदि कोई सदस्य एफवाई 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहते हों, वे investor.relations@jaispring.com पर ईमेल करें अथवा कम्पनी/आरटीए को लिखें। कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') उपलब्ध कराने के लिये एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली प्राप्त की है तथा सभी सदस्यों के लिये एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली ('ई-वोटिंग') के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी। एजीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जायेगी। भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों अथवा जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अपना मतदान कर सकते हैं। केवाईसी का अद्यतनीकरण

भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने कम्पनी में अपने पोस्टल पते, ई-मेल पते, टेलीफोन/मोबाईल नम्बर/स्थाई खाता संख्या पैन, मैन्डेट्स, नोमिनेशन्स, पावर ऑफ एटॉर्नी, बैंक के विवरणों को पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराये हों, उनसे आग्रह है कि सेबी सर्क्युलर नं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/655 तिथि 3 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में शेयरधारकों को जारी की गई निर्धारित प्रपत्रों में उसे पंजीकृत/अद्यतन करा लें। कृपय मै. स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्रा.लि. में डी-153/ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में कम्पनी के आरटीए के पास उसे भेजें अथवा ईमेल आईडी: grievances@skylinerta.com; अथवा admin@skylinerta.com अथवा

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये

parveen@skylinerta.com, फोन नं. +91-11-40450193-97 पर उसे भेजें। निर्धारित प्रपत्र

तिथि: 23 जुलाई, 2022 प्रवीण लखेरा स्थानः नई दिल्ली कम्पनी सचिव एवं हेड लीगल

#### ऋण वसूली अधिकरण–।, दिल्ली चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओए नं. 38 / 2021 यस बैंक विरुद्ध

कम्पनी की वेबसाईट www.jaispring.com पर भी उपलब्ध है।

प्रतिवादीगण

(1) संतोष कुमार एव अन्य। पिता प्यारेलाल बी–265, सरस्वती एन्क्लेव, सेक्टर 10ए के पास, गूड़गांव, हरियाणा– 122001

संतोष कुमार एवं अन्य

ईमेल पताः kumarsantosh243845@gmail.com, गुड़गांव, हरियाणा-122001, अन्य पताः संतोष कुमार पिता प्यारेलाल, बी-15 द्वितीय तल, सेक्टर-64, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, अन्य पता : संतोष कुमार पिता प्यारेलाल (संपत्ति) फ्लैट नं. सी–1608, 16वां तल, टावर–सी, जीएच-3/1, मरीना सूट्स, पार्क टाउन-एनएच-24 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002

प. / पु. बंशराज, बी—265, सरस्वती एन्क्लेव, सेक्टर 10ए के पास, गुड़गांव, हरियाणा—122001,

अन्य पता : विमला देवी प./पु. बंशराज, मकान संख्या 162, बद्दोपुर, रानीमऊ, जौनपुर, उत्तर

प्रदेश-222139, अन्य पताः विमला देवी प./पू. बंशराज, (संपत्ति) फ्लैट नं. सी-1608, 16वां तल, टावर-सी, जीएच-3/1, मरीना सुट्स, पार्क टाउन-एनएच-24 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-

(3) मैसर्स स्काईहाई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय – गोमती प्लाजा, द्वितीय तल, विकास खंड–।, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010, अन्य पताः मैसर्स स्काईहाई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., ए-125, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, अन्य पताः मैसर्स स्काईहाई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. एच-51, भूतल,

सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 (4)अनिल गोयल प्रबंध निदेशक मैसर्स स्काईहाई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. पंजीकत कार्यालय – गोमती प्लाजा, द्वितीय तल, विकास खंड–।, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर

प्रदेश-226010, अन्य पताः अनिल गोयल प्रबंध निदेशक, मैसर्स स्काईहाई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि ए–125, सेक्टर–63, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, अन्य पताः अनिल गोयल प्रबंध निदेशक मैसर्स स्काईहाई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., 1/92, विराम खंड, गोमती नगर,

जबिक, उपरोक्त नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध **रु. 27,77,823.59/— (रुपए सत्ताईस लाख सतहत्तर** हजार आठ सौ तेईस एवं उनसठ पैसे मात्र) की वस्ती के लिए एक परिवाद संस्थापित किया है और चूंकि यहां उपरोक्त वर्णित अधिकरण के संतोषार्थ यह प्रदर्शित किया जा चूका है कि आपको साधारण विधि के अंतर्गत वसूली की सूचना लेने और वसूलीयोग्य राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता, अतः इस विज्ञापन के द्वारा यह सूचना आपको निर्देश देते हुए प्रकाशित की जा रही है कि इस सूचना के निर्गत होने के बाद 20.10.2022 को प्रातः 10.30 बजे एलडी. रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। (अन्य विवरणों के लिए कृपया डीआरटी वेबसाइट www.etribunal.gov.in देखें, दूरभाष संख्याः 011-23748473) पर संपर्क करें)। आपको यह सुचित किया जाता है कि यदि आप इस अधिकरण के समक्ष ऊपर वर्णित दिवस पर उपस्थित

रहने में विफल होते हैं तो परिवाद को आपकी अनुपस्थिति में सून लिया जाएगा और निर्णय दे दिया अनवरत् बनी हुई महामारीजनित स्थिति के कारण समस्त विषयों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से

लिया / उठाया जाएगा और इस उददेश्य हेत्:-(XXV) समस्त अधिवक्ताओं / वादियों को "सिस्को वेबेक्स" एप्लिकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना

(XXVI) पंजीयक / वसूली अधिकारी—।/ और वसूली अधिकारी—।। द्वारा लिए / उठाए जानेवाले विषयों की हैसियत से सुनवाई की आगामी तिथि के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" जो हैं, वे डीआरटी आधिकारिक पोर्टल अर्थात् "do2rt.gov.in" पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत आगामी तिथि से एक दिवस पूर्व उपलब्ध होंगे।

(XXVII) उपर्युक्त के संबंध में किसी अत्यावश्यकता की स्थिति में अधिवक्तागण / वादीगण जो हैं वे संबंधित पदाधिकारी से दूरभाष सं. 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।

आज 30 मई 2022 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मद्रा के अंतर्गत निर्गत। इस अधिकरण के आदेश द्वारा

कृते रजिस्ट्रार प्रतिवादी, अन्य पूछताछ करने के लिए, निम्नांकित दूरभाष संख्या पर संपर्क कर सकते हैं:

श्री अमित के. डार, एलडी. रजिस्ट्रार डीआरटी-।, नई दिल्ली दूरभाष सं.: 011.23748473 ईमेलः drt1delhi-dfs@nic.in





फोनः 011-41732000 फैक्सः 011-26230201 (Government of India Uncertailing (সাত্তর ভারেজার কর ক্রমঞ্জন) वेबसाइटः www.ifciltd.com



### CIN: L74899DL1993GOI053677 शेयरधारकों को सूचना

पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर,

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के अधीन कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा व सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) में अन्तरण

यह सचना एतदवारा निवेशक शिक्षा तथा सरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा-परीक्षा, अन्तरण और वापसी) संशोधन नियम, 2016 (संशाधित) [नियम] के कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है । नियमों में, अन्य बातों के साथ साथ, उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरण करने के प्रावधान भी शामिल हैं, जिनके सम्बन्ध में लगातार 7 या उससे अधिक वर्षों से शेयरधारकों को लाभांश अदा नहीं किया गय और / अथवा उनके द्वारा इसका दावा नहीं किया गया।

कम्पनी ने समी सम्बन्धित शेयरधारकों, जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित किए जाने हैं, को अलग-अलग सचित कर दिया है। ऐसे शेयरधारकों के समचित विवरण, कम्पनी की वेबसाइट https://www.ifciltd.com/?q=content/unclaimed-investors पर भी

सम्बन्धित शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप से शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित किए जाने हैं, वे नोट करें कि कम्पनी, नियमों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ऐसे शेयरों के अन्तरण के उद्देश्य से उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर नए शेयर प्रमाणपत्र जारी कर रही है और इस अन्तरण के बाद उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और बेचने योग्य नहीं रह जाएंगे। शेयरधारक यह भी नोट करें कि इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट पर डाले गए विवरणों को ही नियमों के अनुसरण में शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में पर्याप्त सुचना मानी जाएगी। यदि शेयर डी-मैट रूप में धारित हैं और अन्तरित किए जाने हैं तो कम्पनी निगमित कार्यवाही द्वारा इन शेयरो को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में अन्तरित कर देगी।

दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को आयोजित वार्षिक महासभा में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 5% की दर से अंतिम लाभांश घोषित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के अदावाकत/अप्रदत्त लाभांश 27 अक्टूबर, 2022 को आईईपीएफ में अन्तरित किए जाने होंगे। जिनके विवरण कम्पनी की वेबसाइट के ऊपर दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं। यदि कम्पनी/रजिस्टार व टांसफर एजेंट को वित्तीय वर्ष 2014-15 और उसके बाद के अप्रदत्त लागांश के लिए शेयरवारकों से 28 अक्टूबर 2022 तक कोई दावा/आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित कर दिए जाएंगे। एक बार यदि शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित कर दिया जाता है तो उन शेयरों पर प्रोद्मूत सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अप्रदत्त लाभांश और/या शेयरों का दावा शेयरधारकों द्वारा नियमों में निर्धारित अपेक्षित प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जा सकता है।

उक्त मामले पर किसी स्पष्टीकरण या पूछताछ के लिए, शेयरधारक कम्पनी से उक्त उल्लिखित पते पर सम्पर्क कर सकते हैं या कम्पनी के रजिस्टार व टांसफर एजेंट अर्थात मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि., एफ-65, प्रथम मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-।, नई दिल्ली-110020, फोन 011-41406149/51/52, ई-मेल: admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com से सम्पर्क कर सकते हैं । कृते आईएफसीआई लि.

दिनांक : 25 जुलाई, 2022 (प्रियंका शर्मा) स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव

www.readwhere.com

अपीलः सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी. आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 03.11.2021 के अनुसार, अपना पैन, केवाईसी, नामांकन, बैक और संपर्क विवरण अपडेट करें। कृपया लिंक देखें: https://www.ifciltd.com/?q=en/content/mandatory-kyc-details-etc

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

(आईटी-एचआरएमएस)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम s-(1)

13(2) के तहत। कथित नियमों के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएचएफएल) के अधिकृत प्राधिकारी ने कर्जदार(रों) से उन्हें सम्बन्धित मांग सुचना(ओं) में सम्बन्धित उल्लिखित राशि का

पुनर्भुगतान करने के मांग सूचना जारी की। उपर्युक्त के संबंध में एतद्वारा एक बार पुनः कर्जदार(रों) को भुगतान की तिथि से मांग सूचना की तिथियों से उस पर ब्याज सहित नीचे

उल्लिखित राशि का इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है। कर्जदार(रों), मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान

मिडिल साइड) संसञ्जित मंजिल, प्लॉट प्राइवेट नंबर १ और २. बिना छत/टेरेस| सौ अठहत्तर मात्र) प्रॉस्पेक्ट नं, 864707 द्वारा तथा रु.|

के अधिकार के, माप 80 वर्ग गज यानी 66.888 वर्ग मीटर, (कुल माप 270 वर्ग 4,58,974/- (रुपये चार लाख अट्टावन हजार नौ सौ

अधिक विवरण के लिए सम्पर्क करें : अधिकृत प्राधिकारी, शाखा कार्यालय : कार्यालय सं.–प्लॉट नं. 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के पास, मोर्त

POST OFFER ADVERTISEMENT

MOONGIPA SECURITIES LIMITED

(Hereinafter referred to as 'MSL' or 'TC' or 'Target Company')

CIN: L74899DL1994PLC057941

Registered Office:18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005, India

Tel. No.: +91-11- 41450121, Email ID: moongipas@gmail.com, Website: www.moongipa.net

Open Offer for acquisition of 13,02,652 Equity Shares from the Shareholders of Moongipa Securities Limited

Mr. Rahul Gupta and Mr. Rohan Gupta

This Post Offer Advertisement is being issued by Corporate Professionals Capital Private Limited, for and on behalf of Mr. Rahul

Gupta and Mr. Rohan Gupta (hereinafter collectively referred to as 'Acquirers') in compliance with Regulation 18(12) of the Securities

and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011. The Detailed Public Statement

('DPS') with respect to the aforementioned offer was made on August 27, 2021, Friday in Financial Express (English) (All Editions).

Corporate Professionals Capital Private Limited

Proposed in the Offer Document

INR 18.01 (including interest) per equity share\*

INR 58 (including interest) per equity share\*\*

13,02,652

**Equity Shares** 

(26.00%)

13,02,652

**Equity Shares** 

(26.00%)

INR 7,55,53,816/-

28,18,153

56.25%

13,02,652

26.00%

Nil

NA

NA

41,20,805

82.25%

Post offer

8.89,395

17.75%

Beetal Financial and Computer Services Private Limited

Offer, thus no payment is required to be made to the shareholders.

Last date for payment of consideration as per SEBI (SAST) Regulations, 2011 is

August 05, 2022, Friday, however, Nil shares have been tendered under the Open

Actuals

INR 58 (including interest) per equity

Share\*\*

Equity Shares

(0.00%)

**Equity Shares** 

(0.00%)

Nil

Nil

28,18,153#

56.25%

Nil

Nil

NA

NA

28,18,153#

56.25%

Post offer

21.92.047

43.75%

Pre offer

21,92,047

43.75%

Moongipa Securities Limited

Mr. Rahul Gupta Mr. Rohan Gupta

July 11, 2022 Monday

July 22, 2022 Friday

OSBI एचआरएमएस विभाग, ग्लोबल आईटी सेंटर, भारतीय स्टेट बैंक, 4थी मंजिल, टावर नंबर 7, सीबीडी बेलापुर रेलवे स्टेशन बिल्डिंग, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नयी मुंबई - 400614, महाराष्ट्र

#### (ईओआई) 'मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) की खरीद के लिए'

शुद्धिपत्र-1

PUBLIC NOTICE

This is for the information of general public that the plot no.

1247. Sector 29 at Alpha International City, Kamal is allotted

in the name of Late Mr. Ankit Jain S/o Mr. Deepak Kumar

Jain R/o 100, Vaishali, Pitampura, Delhi-110088, Mr. Anki

Jain has got expired on 19/10/2015. He has transferred the

said plot in the name Mr. Atin Jain S/o Mr. Deepak Kumar

Jain R/o. 100, Vaishali, Pitampura, Saraswati Vihar, North

West Delhi, Delhi-110034 & Mr. Deepak Kumar Jain S/o Mr.

Surendra Kumar Jain R/o 100, Vaishali, Pitampura, North

West Delhi, Delhi-110034 & Mrs. Kavita Jain Wo Mr.

Deepak Kumar Jain Rin 100, Vaishali, Pitampura, North

West Delhi, Delhi-110034. In view of above, Mr. Atin Jain

S/o Mr. Deepak Kumar Jain & Mr. Deepak Kumar Jain S/o

Mr. Surendra Kumar Jain & Mrs. Kavita Jain Wo Mr.

Deepak Kumar Jain has applied for transfer of said plot in their names at Alpha corp. Development Pvt. Ltd. Kamai

Office (Alpha International City, Sector 28 & 29, Karnal, Ph.

No. 8295608877). If anyone has any objection on the

above. Please Contat/Write to above mentioned Alpha

Corp. Development Pvt. Ltd. address within 30 days. If

there is no objection received in 30 days, It will be treated as

no objection to it and plot will be transferred in the name of

Mr. Atin Jain & Mr. Deepak Kumar Jain & Mrs. Kavita Jain as

तिथि: 25.07.2022

और 946313)

स्थान : इन्दौर दिनांक : 27.07.2020

के प्रति प्रस्तावित प्रतिभृति का विवरण नीचे दिया गया है :

यह भारतीय स्टेट बैंक के संदर्भ संख्या SBI:GITC:ETA/RPF/2022-23/15 के साथ ईओआई के लिए आमंत्रण के संबंध में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की खरीद के लिए मौजूदा बैंक के एचआरएमएस आवेदन को अपग्रेड / संशोधन के लिए योग्य ओईएम के चयन के लिए संदर्भित करता है. ईओआई और पात्रता मानदंड में संशोधन का विवरण शुद्धिपत्र- 1 के रूप में बैंक की वेबसाइट <u>https://bank.sbi</u> पर **'प्रोक्योरमेंट न्यूज़'** अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है. स्थान: नवी मुंबई उप- महाप्रबंधक

गज में से), खसरा संख्या 505/1 का हिस्सा, गांव बुराड़ी के विस्तारित लाल डोरा

मार्ले 87/2628 के हिस्से तक जो 9 मरला 6 सरसाई (292 वर्ग गज) है औ

खेवट खाता नंबर 66/68 रील 17 किला नं. 21/1 (5-18) किता 1 माप 5 कनात

18 मरला 16/1062 हिस्से की सीमा तक जो 1 मारला 7 सरसाई (52 वर्ग गज

के बराबर है, इस प्रकार कुल 11 मरला 4 सरसाई ( 344 वर्ग गज), गां

नरसिंगपुर की राजस्व संपत्ति में, कादीपुर, गुड़गांव, 122004, हरियाणा, भारत

श्रीमती बलबीर कौर. बी.एम. अग्रलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भागः सम्पत्ति संख्या-ए-46, संपूर्ण भूतल, बिना रु. 1,13,082/- (रुपये एक लाख तेरह हजार बयासी

आबादी के भीतर, उत्तरी दिल्ली-110084, भारत में स्थित

योगेश त्यागी, श्रीमती मुनेश । भाग, माप ७४.२५ वर्ग गज, खसरा नंबर ८७४/२, लाल डोरा, संत नगर, बुराई

ट्रेडिंग, श्री विक्रमजीत सिंह ब्रित∕टेरेस के अधिकार के, माप 75 वर्ग गज, रेक्ट नंबर-16, किला नंबर 17,

नगर, नई दिल्ली/या कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 98, फेज–IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा।

Jansatta (Hindi) (All Editions) and Pratahkal (Marathi) (Mumbai Edition).

Name of the Target Company

Date of Opening of the Offer

Date of Closure of the Offer

7.2 Aggregate number of shares tendered

7.3 Aggregate number of shares accepted

7.4 Size of the Offer (Number of shares

multiplied by offer price per share)

Agreements/PublicAnnouncement

% of Fully Diluted Equity Share Capital

% of Fully Diluted Equity Share Capital

Shares acquired after Detailed Public

Number of shares acquired

Price of the shares acquired

Post offer shareholding of Acquirers

7.10 Pre & Post offer shareholding of Public

% of Fully Diluted Equity Share Capital

% of Fully Diluted Equity Share Capital

\*The Offer Price mentioned in the Letter of Offer dated July 04, 2022.

\*\* The Offer Price mentioned in the Offer Opening Public Announcement dated July 08, 2022.

% of the shares acquired

Shares Acquired by way of Open Offer

Shareholding of Acquirers before

7.6 Shares Acquired by way of Agreements.

Details of Acquisition

Particulars

Offer Price

(No. & %)

Allotment

Number

Number

Statement

Number

No.

Name of the Manager to the Offer

Name of the Registrar to the Offer

Date of Payment of Consideration

Name of the Acquirers

Offer Details

📵 pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

11-10-2019 तक

की तिथि

2022

2022

2022

2022

2021

2022

2021

मात्र) प्रॉस्पेक्ट नं. 947614 द्वारा तथा रु.

आठ सौ अट्ठाईस मात्र) प्रॉस्पेक्ट नं. 946313 द्वारा

(रुपये चार लाख छिहत्तर हजार दो सौ इक्कीस मात्र)

ह./- अधिकत प्राधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

## परिशिष्ट-IV-ए

ई-नीलामी- अचल सम्पत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना पंजीकृत कार्यालय : १वी मीजल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा का पर्ता : आफस न. 307 तथा 308, ताताय तल, कामासयल काम्प्लक्स, सायबर हाइटस, प्लाट न. टासा/जा-2/2 तथा टासा/जा-5/5, विभित्रखंड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)-226010, ईमेल: lucknow@pnbhousing.com

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कॉलम ए में अंकित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/प्रभावित कॉलम डी में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कॉलम सी में वर्णित है) मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रतिभृत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, निम्नलिखित विवरणों के अनुसार उसकी बिक्री ''जहाँ है जैसे है, जो है यही है और जो कुछ भं

एतद्वारा अब तक संशोधित प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के तहत कॉलम अ में अंकित कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(यों), विधिक प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), एक्जीक्यूटरी, प्रशासक(कों) उत्तराधिकारी(यों), संबंधित कर्जदारों/बंधककर्ता(ओं) (मृतक) के एसाइनी(यों), जैसा मामला हो, को एतद्वारा सूचना दी जाती है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल

प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.pnbhousing.com देखें। ऋण सं /कर्जदार/ सहकर्जदार/जमानती( यों ) तथा तिथि ( आरपी ) (आरपी का करने की तिथि एवं तिथि एवं भार/कोर्ट केस ⁄विधिक उत्तराधिकारियों अन्तिम तिथि यदि कोई 10%) के नाम(A) **(B) (F) (G)** (K) श्रीमती कुलवन्त कौर 57/- (रुपये सात नगर सुनेहरा, वार्ड-सरोजिनी नगर, लखनऊ (रुपये तीस लाख को 17:30 को 11:00 बजे को 11:00 बजे एसए 324 3,00,000/ 10,000/ (कर्जदार), श्री अमरजीत लाख पन्द्रह हजार माप 2700 वर्ग फीट, सीमाएँ : पूर्व : अन्य क (रुपये तीन बजे अप. से पूर्वा. से 14:30 पूर्वा. से 14:00 डीआरटी सिंह (सह-कर्जदार) तथा आठ सौ तीन एवं प्लॉट, पश्चिम : 20 फीट रोड, उत्तर : अमरजीत लाख मात्र) बजे अप. बजे अप. लखनऊ राकेश कुमार पाण्डे सत्तावन पैसे मात्र) सिंह का प्लॉट, दक्षिण : अन्य का प्लॉट के समक्ष

'साथ ही 18% की दर से यथाप्रयोज्य भावी ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि जो भुगतान तथा∕अथवा उसकी वसूली की तिथि तक हुए हैं। \*\* पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी वे सर्वोत्तम ज्ञान में कॉलम सं. K में प्रकटित को छोड़कर उपर्युक्त अचल/प्रतिभृत आस्तियों के सन्दर्भ में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं। पुनः ऐसे ऋण भार सफल क्रेता/संविदाकार द्वारा अपने दायित्व पर दिये/अदा किये जायेंगे। सम्भावित क्रेता(ओं)⁄संविदाकारों से उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता स्वतन्त्र रूप से सनिश्चित करने का निवेदन है।

1. अब तक उपर्युक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभृत आस्तियों की बिक्री, एलिनिएट करने तथा/अथवा निस्तारण से पीएनबी एचएफएल/पीएनबी एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी को प्रतिबन्धित करने का कोई आदेश तथा/अथवा कोर्ट इंजक्शन नहीं है। 2. सम्भावित क्रेता/संविदाकार तथा इच्छुक पार्टियां पीएनबी एचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व के दस्तावेजों से सम्बन्धित या स्वामित्व सहित कॉलम–ङ में उल्लिखित कार्यवाही/पारित आदेश आदि में मुकदमे से सम्बन्धित स्वतन्त्र निरीक्षण कर सकती हैं और अपनी निविदा/संविदा आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव करने से पूर्व सभी पक्षों में स्वयं को सन्तुष्ट कर सकती हैं। संविदाकार(रों) को संविदा प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियम एवं शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा।

. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के सन्दर्भ में संविदाकार/क्रेता बिक्री मृल्य का 25% (जमा धरोहर राशि, यदि कोई हो, सहित) उसी दिन या या अधिकतम अगले दिन जमा करने के लिए बाध्य होगा। यह बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभृत लेनदार द्वारा बिक्री मृल्य के 25% राशि की प्राप्ति के बाद ही संविदाकार(रों) के पक्ष में पुष्टि की जायेगी। बिक्री मृल्य का शेष 75% राशि बिक्री की पुष्टि पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा जमा किया जाना है और इस राशि को जमा करने में चूक करने पर सम्पत्ति/प्रतिभृति आस्ति की पुनः बिक्री की जायेगी।

. मैसर्स नेक्सजेन सॉल्यशन प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता का नामोल्लेख करें) ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल (https://DisposalHub.com) पर बिक्री संचालित करने वाले अधिकृत प्राधिकारी की सहायता करेंगे। सम्पत्ति के निरीक्षण अथवा संविदा दस्तावेज प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी सहायता तथा किसी अन्य पूछताछ या पंजीकरण हेतु आप क्लाइंट सर्विस डिलीवरी (सीएसडी) विभाग, कार्पोरेट कार्यालय : नेक्सजेन सॉल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड, 2सरा तल, श्री श्याम पैलेस, सेक्टर 4 एवं 5 क्रॉसिंग, रेलवे रोड, गुरुग्राम-122006 या पंकज तिवारी 7895649900, पीएनबीएचएफएल के अधिकृत व्यक्ति से सम्पर्क करें या www.pnbhousing.con

का सन्दर्भ लें। स्थान : लखनऊ ह./- अधिकृत प्राधिकारी तिथि : 23.07.2022 पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड

## गुलशन पोलीओल्स लिमिटेड

सीआईएनः L24231UP2000PLC034918 पंजीकृत कार्यालयः १वां कि.मी., जनसठ रोड, मुजफ्फनगर - 251001, उत्तर प्रदेश, भारत कॉर्पोरेट कार्यालयः जी-81, प्रीत विहार, दिल्ली-110092, भारत POLYOLS LIMITED

फोनः +91 11 49999200; फैक्सः +91 11 49999202

ई-मेलः cs@gulshanindia.com. वेबसाइटः www.gulshanindia.com

अंशधारकों को सूचना

समता अंशों तथा गैरदावाकृत लामांशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) को हस्तांतरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकर<mark>ण</mark> (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 के नियमन 6 ('आईइपीएफ नियम'), यथा समय यथा संशोधित, व अनुपालन में एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि ऐसे सभी अंश जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उस<mark>से</mark> अधिक से गैरदावाकृत / अदत्त है कम्पनी द्वारा आईइपीएफ को, ऐसे अंशों पर अर्जित सभी लाभों सहित, हस्तांतरि<mark>त</mark> करना वांछित है।

आईइपीएफ नियमों के अनुपालन में, कम्पनी उन संबंधित अंशधारकों, जिन्होंने कम्पनी द्वारा घोषित वित्तीय वर्ष 2014—1<mark>5</mark> हेत् एवं सभी उत्तरवर्ती लागांशों का दावा नहीं किया / भुगतान नहीं लिया है और जिनके अंश आईइपीएफ में हस्तांतरि<mark>त</mark> होने हेत् संभाव्य हैं, को कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास उपलब्ध उनके नवीनतम पते पर आवश्य<mark>क</mark> सूचना भेज रही है । ऐसे अंशधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट <u>www.gulshanindia.com</u> पर 'इन्वेस्टर्स रिलेशं<mark>स'</mark> अनुभाग के अन्तर्गत अपलोड भी किया गया है। अंशधारक आईइपीएफ को हस्तांतरण हेत् संभाव्य अंशों के विवरण के सत्यापित करने हेत कम्पनी की वेबसाइट देख सकते हैं।

यदि कम्पनी को नियत तिथि अर्थात् 25 अक्टूबर, 2022 को या उसके पूर्व संबंधित अंशधारकों से कोई संचार प्राप्<mark>त</mark> नहीं होता है, तो वह उक्त आईइपीएफ नियमों के अनुसार अंशों को आईइपीएफ में हस्तांतरित कर देगी। कृपया ध्या<mark>न</mark> दें कि आईइपीएफ को हस्तांतरित किए गए गैरदावाकृत लाभांशों एवं अंशों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दा<mark>वा</mark> मान्य नहीं होगा।

किसी भी प्रश्न अथवा सहायता हेतु, कृपया त्वरित कार्रवाई के लिए कम्पनी को उपरोक्त पते पर अथवा कम्प<mark>नी</mark> के रजिस्टार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट, मेसर्स अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड को अलंकित हाइटस, 4ई/<mark>2</mark> झंडेवालान एक्सटेंशन—1, नई दिल्ली—110055, भारतय फोनः +91—11—42541955/964, +91—892995531<mark>8</mark>, ईमेलः ramap@alankit.com पर लिखें / ई–मेल करें।

अंशघारक ध्यान दें कि वे उक्त तिथि के उपरान्त गैरदावाकृत लाभांशों एवं आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरि<mark>त</mark> अंशों, दोनों, का दावा, प्रपत्र आईइपीएफ–5 (आईइपीएफ की वेबसाइट <u>www.iepf.gov.in</u> पर उपलब्ध) में आईइपीए<mark>फ</mark> को ऑनलाइन आवेदन जमा करके तथा साथ ही साथ उसकी एक विधिवत हस्ताक्षरित भौतिक प्रति, उक्त प्रप<mark>त्र</mark> आईइपीएफ–5 में प्रगणित अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित, कम्पनी को उसके उपरोक्त कॉर्पोरेट कार्यालय के पते प<mark>र</mark> मेजकर, कर सकते हैं।

इस सचना में निहित जानकारी कम्पनी की वेबसाइट <u>www.gulshanindia.com</u> तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइ<mark>ट</mark> www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

अंशधारक ध्यान दें कि संशोधित एवं प्रासंगिक कानुनों के अनुसार, किसी भी सेवा अनुरोध को कम्पनी की वेबसाइ<mark>ट</mark> https://www.gulshanindia.com/shareholders-other-form.php पर उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसा<mark>र</mark> KYC अनुपालन के बाद ही संसाधित किया जा सकता है।

दिनांकः 24 जुलाई, 2022 स्थानः दिल्ली

कृते गुलशन पोलीओल्स लिमिटे<mark>ड</mark> आशा मित्तल कम्पनी सचिव

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठि नियम 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) क अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते, कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों सचना में उल्लिखित राशि का कथित सचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीत पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सुचना निर्गत की गयी थी। कर्जदार के राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित नियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्ज

कर्जदार( रों )/सह-कर्जदारों का नाम दिल्ली एवं	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	<b>कुल बकाया राशि (रु.)</b> प्रॉस्पेक्ट संख्या 854799 रु. 30,13,058/- (रुपए	माँग सूचना	कब्जा कर की तिथि
गाजियाबाद शाखा श्री सुंदर लाल और श्रीमती सोनम (प्रॉस्पेक्ट संख्या 854799, 855503 और 920223)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : निर्मित सम्पत्ति के छत के अधिकार रहित सम्पूर्ण द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 87, माप 100 वर्ग गज, खसरा नं. 7/11, ग्राम मटियाला, जैन पार्क, ब्लॉक-ए, उत्तम नगर, 110059, दिल्ली	तीस लाख तेरह हजार अट्ठावन मात्र) प्रॉस्पेक्ट संख्या 855503 रु. 1,19,258/- (रुपये एक लाख उन्नीस	की तिथि 12- अग 2021	20-जुलाई 22
श्री राजेश, श्रीमती सोनाली और वी भसीन कार गैस (प्रॉस्पेक्ट संख्या 941622 और 944853)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : म.नं228, माप 753 वर्ग फुट, आरपीएस डीडीए फ्लैट्स, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली, 110032, भारत	बाईस लाख अड़तीस हजार तीन सौ चौरानबे मात्र)	03- मार्च- 2022	20-जुलाई 22
श्री राजेश कुमार, श्रीमती आरती गोस्वामी, श्रीमती बिंदा गिरी, श्रीमती गीता कुमारी और श्री राकेश गिरि (प्रॉस्पेक्ट संख्या 810979)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : फ्लैट नंबर 1, ग्राउंड फ्लोर, माप 70.5 वर्ग गज, संपत्ति संख्या बी -40, खसरा नं. 1076/5/2/303, दिलशाद एक्सटेंशन नंबर 1, लिमिल ताहिरपुर, शाहदरा, दिल्ली, 110095 , दिल्ली, भारत	(रुपये दस लाख तिरसठ हजार पांच सौ दस मात्र)	16- मार्च- 2021	20-जुलाई 22
श्री अमित प्रकाश और श्रीमती निशा (प्रॉस्पेक्ट संख्या 869367)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : संपत्ति की छत के अधिकार के बिना पहली मंजिल के पिछले हिस्से का सम्पूर्ण भाग, सी-69, क्षेत्रफल 47 वर्ग गज कुल 94 वर्ग गज में से खसरा नं. 355, ब्लॉक-सी, ग्राम बिंदापुर, विश्वास पार्क, नई दिल्ली-110059 में	(रुपये सत्रह लाख इकतीस हजार नौ सौ उनतालीस मात्र)	24-जून- 2021	20-जुलाई 22
श्री चेतन, श्रीमती बिमला और श्रीमती निशा पाल (प्रॉस्पेक्ट संख्या 902554, 901673)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : बिल्ट अप प्लॉट नं. 76, ग्राम सराय पीपल थाला, दिल्ली के 1908-9 के लाल डोरा में स्थित, 80 वर्ग गज का क्षेत्रफल।	लाख सतहत्तर सात हजार चार सौ छियानवे मात्र) प्रॉस्पेक्ट संख्या 901673 रु. 21,91,341/– (रुपये इक्कीस लाख इक्यानबे हजार तीन सौ इकतालीस मात्र)	06- अक्टू 2021	20-जुलाई 22
श्री विमल गुप्ता, श्रीमती तनुजा गुप्ता और श्री विनय गुप्ता (प्रॉस्पेक्ट नंबर 853126)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : संपत्ति संख्या 4606, माप 50.16 वर्ग मीटर, रूफ टेरेस राइट्स के साथ, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली, 110006, भारत में स्थित।		21-जून- 2021	20-जुलाई 22
श्री राकेश चौहान, श्री कुणाल चौहान और श्रीमती सरिता चौहान (प्रॉस्पेक्ट संख्या 801649)	पुरी, गाजियाबाद, उ.प्र., गाजियाबाद, 201001, उत्तर प्रदेश, भारत	रः 10,005,005 म (रुपये दस लाख तिरासी हजार तीन सौ चौवन मात्र)	02- फर 2022	20-जुलाई 22
श्री रजनी कांत शर्मा, श्रीमती तनुजा शर्मा (प्रॉस्पेक्ट संख्या 876454)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : दो मंजिल बिल्डिंग, नगर निगम संख्या 240, और 241 और नया नंबर 255 और 256 माप 148.92 वर्ग मीटर, मित्तूलाल बजरिया शार्की गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010 भारत	(रुपये अट्ठाईस लाख इकतीस हजार पांच सौ इकतालीस मात्र)	10-मई- 2022	20-जुलाई 22
श्री अमित कुमार बंसल, श्रीमती गीता बंसल और नव जीवन आदर्श पब्लिक स्कूल (प्रॉस्पेक्ट संख्या 843341)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : खेवत नं –36 खसरा नं –349/1 सम्पत्ति नं –112, माप 139.34 वर्ग मीटर, ग्राम – सादातपुर गुजरां, सोनिया विहार की आबादी में, शाहदरा, पिनकोडः 110032, दिल्ली, भारत	(रुपये पचपन लाख चौदह हजार तीन सौ अट्ठासी मात्र)	08- नव 2021	20-जुलाई 22
श्री कुलदीप सिंह और श्रीमती अनीता कौर (प्रॉस्पेक्ट संख्या 907044, 952278, 934194 और 913531)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : प्लॉट नंबर 105, 753 वर्ग फीट, सामने ऑर्डिनेंस डिपो, पश्चिम विहार एक्सटेंशन, पश्चिम विहार, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, 110063, भारत में स्थित	बाईस लाख छप्पन हजार उन्यासी मात्र) प्रॉस्पेक्ट	02-मार्च 2022	20-जुलाई 2022
श्रीमती अंजू शर्मा, एवी इंटरनेशनल (प्रॉस्पेक्ट संख्या 765889 और 768868 और 837751)	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : प्लॉट नंबर -77, छत के अधिकारों के साथ दूसरी मंजिल आरएच, माप 92.82 वर्ग मीटर। ब्लॉक ई, सेक्टर 1, रोहिणी, नई दिल्ली, 110085, दिल्ली, भारत	अट्ठाईस लाख छिहत्तर हजार छह सौ चौवन मात्र) प्रॉस्पेक्ट संख्या 768868 रुपये 1,08,102/- (रुपये एक लाख आठ हजार एक सौ दो मात्र) प्रॉस्पेक्ट संख्या 837751 रुपये 6,51,136/- (रुपये छ: लाख इक्यावन हजार एक सौ छत्तीस मात्र)	20-जन. 2022	20-जुलाः 2022
मदन लाल, मीरा और मेसर्स श्री रामा पीर	अग्रलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : डीडीए बिल्ट अप एमआईजी फ्लैट नं. 574, प्रथम तल, क्षेत्रफल		08-दिस. 2021	20-जुलाई 2022

अधिक विवरण के लिए सम्पर्क करें : अधिकृत प्राधिकारी, शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ रोड, जगुआ

शोरूम के पास, मोती नगर, नई दिल्ली, तथा कार्यालय सं. 1, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, प्लॉट सं. सी-1, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-

ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

पॉलिमर्स (प्रॉरपेक्ट संख्या माप 90 वर्ग मीटर, एसएफएस पॉकेट-जीएच-13.

स्थान : दिल्ली एवं गाजियाबाद, दिनांक : 25.07.2022

पश्चिम विद्वार दिल्ली भारत

201010/अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट सं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा।

Pre offer

21.92,047

43.75%

# The Share Purchase Agreement entered on August 20, 2021 between Acquirers and Sellers for the acquisition of 28,18,153 equity shares representing 56.25% of the paid up share capital of the Target Company has not been executed as of July 23, 2022. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under

SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011. A copy of this Post Offer Advertisement will also be available on the SEBI website at www.sebi.gov.in; BSE website at www.bseindia.com; website of Manager to the Offer www.corporateprofessionals.com and at the registered office of the Target Company at 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005.

> Issued by Manager to the Offer Corporate **Professionals**

## CORPORATE PROFESSIONALS CAPITAL PRIVATE LIMITED

D-38. South Extn. Part 1, New Delhi - 110049 Contact Person: Mr. Manoj Kumar/ Ms. Ruchika Sharma Ph.: +91-11-40622228/ +91-11-40622248, Fax: +91-11-40622201 Email ID: manoj@indiacp.com / ruchika.sharma@indiacp.com SEBI Regn. No: INM000011435

For and on behalf of-

Rahul Gupta Acquirer 1

Rohan Gupta Acquirer 2

Place: New Delhi Date: July 23, 2022







#### CIN: L24231UP2000PLC034918

Regd. Office.: 9th K.M. Jansath Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh – 251001, India Corporate Office: G-81, Preet Vihar, Delhi-110092, India Tel: 011-49999200, Fax: 011-49999202 Email Id: cs@gulshanindia.com; Website: gulshanindia.com

#### Dear Shareholder,

Subject: Letter with respect to transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") under Section 124 of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") as amended from time to time, to the DEMAT Account of IEPF Authority.

With reference to the captioned subject and pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 6 of IEPF Rules, as amended from time to time, any underlying shares on which dividends has not been claimed by the shareholder for a period of seven consecutive years or more, it shall be credited to DEMAT Account of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA") within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred.

It is observed from the records that you have not claimed the dividends declared by the Company in respect of your Folio/DP-Client ID for a period of seven consecutive years or more. You are therefore requested to claim or encashed the unclaimed dividend(s) on or before **October 25, 2022** and may communicate to the Company's Registrar & Share Transfer Agent ("RTA"), Alankit Assignments Limited at Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi – 110055; Phone: +91-11-42541955/1234; E-mail at rta@alankit.com / ramap@alankit.com or to the Company at investorsrelation@gulshanindia.com/cs@gulshanindia.com.

However, in case the dividend amounts are not claimed within the stipulated period i.e. on or before October 25, 2022, the Company shall transfer the shares in respect of which dividends remains unclaimed for a period of seven consecutive years including all benefits accruing on such shares to IEPF Authority, without any further notice, by following the due procedure as prescribed under the IEPF Rules. Please note that if the dividend amounts are not claimed within the aforesaid period, the Company shall transfer the shares held by you in the Company to the DEMAT account of the IEPF Authority with in stipulated time post October 25, 2022.

- For shares held in physical form, the Company would issue duplicate share certificate by way of 'letter of confirmation' in lieu of original share certificate for the purpose of transfer of shares to the IEPF Authority and upon such issuance, the original share certificate will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.
- For shares held in demat form, the Company will process the transfer of shares through Depositories by way of Corporate Action in favour of IEPF Authority.

Please note that upon transfer of such shares, all benefits accruing on such shares shall also be credited to IEPF Authority, as the case may be and the voting rights on such shares shall remain frozen till the rightful owner claims the shares.

Shareholders are cautioned that, pursuant to the IEPF Rules after the transfer of shares to the IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect of such unclaimed dividend amounts and shares transferred to the IEPF Authority. Also note that the Shareholders would have right to claim the dividends and underlying shares from the IEPF Authority by following the procedure as given on the website of IEPF i.e. <a href="www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html">www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html</a>.

Shareholders may note that as per SEBI circular dated November 3, 2021, December 14, 2021 and January 25, 2022, any service request can be processed only after the folio is KYC Compliant. You may access requisite information and formats at https://www.gulshanindia.com/shareholders-other-form.php.

In view of the above, we hereby request you to encash the dividend warrant(s) which have not been encashed for the last seven consecutive years by providing the requisite documents. For providing documents and if you have any query or need any clarification, please write to us at abovesaid email addresses or at the Registered Office/Corporate Office or to our RTA of the Company on or before October 25, 2022.

Thanking you, Yours faithfully,

For Gulshan Polyols Limited

(Asha Mittal) Company Secretary & Nodal Officer